

इसलिए मैं अपनी महान शक्ति का उपयोग मिस्र के विरुद्ध करूँगा। मैं उस देश में चमत्कार होने दूँगा। जब मैं ऐसा करूँगा तो वह तुम लोगों को जाने देगा।

21
לֹא תֵלְכוּן כִּי וְהָיָה מִצְרַיִם בְּעֵינַי הָיָה הָעָם- הַן אֶת- וְנָתַתִּי
नहीं जाओगा जब और-होगा मिषरिय-की नज़र-में इस लोग क्रिपा को और-दूँगा
H3808 H3212 H1961 H4713 H2088 H2580 H0853 H5414

תֵּלְכוּן רֵיקָם:
खाली जाओगा
H7387 H3212

और मैं मिस्री लोगों को इस्राएली लोगों के प्रति कृपालु बनाऊँगा। इसलिए जब तुम लोग विदा होंगे तो वे तुम्हें भेंट देंगे।

22
זָהָב וְכֶלִי וְכֶסֶף כְּלֵי- בֵיתָהּ וּמְנַחֵת מִשְׁכְּנֹתָהּ אִשָּׁה וְשֹׂאֵלָה
सोने-के और-बासन चाँदी-के बासन घर-अपने-की और-मेहमान पड़ोसन-अपनी-से स्त्री और-माँगी
H2091 H3627 H3701 H3627 H7934 H0802 H7592

מִצְרַיִם: אֶת- וְנָצַלְתֶּם בְּנֹתֵיכֶם וְעַל- בְּנֵיכֶם עַל- וְשֹׂמְתֶם וְשֹׂמֵלֶת
मिषरिय से और-लूटोगा बेटिय-अपनी और-पर बेट-अपने पर और-पेहनाओगा और-कपदे
H4713 H0853 H5337 H1323 H8071

“हर एक हिब्रू स्त्री अपने मिस्री पड़ोसी से तथा अपने घर में रहने वालों से मांगेगी और वे लोग उसे भेंट देंगे। तुम्हारे लोग भेंट में चाँदी, सोना और सुन्दर वस्त्र पाएंगे। जब तुम लोग मिस्र को छोड़ोगे तुम लोग उन भेंटों को अपने बच्चों को पहनाओगे। इस प्रकार तुम लोग मिस्रियों का धन ले आओगे।”